



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 21 अक्टूबर, 2024

आश्विन 29, 1946 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,  
ASHOKA ROAD,  
NEW DELHI-110001

No. 576/EXIT/2024/SDR/VOL. I

Dated : 21<sup>st</sup> October, 2024

### NOTIFICATION

WHEREAS, the schedule for the current general elections to the Legislative Assemblies of Jharkhand & Maharashtra and bye elections to 48 Assembly Constituencies and 2 Parliamentary Constituencies (as per Annexure-1), has been announced by the Election Commission vide Press Note No. ECI/PN/149/2024 and No. ECI/PN/150/2024 both dated 15<sup>th</sup> October, 2024; and

2. WHEREAS, Section 126A of the Representation of the People Act, 1951 (in short R.P. Act, 1951) specifies that "(1) No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of the print or electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard.

(2) For the purposes of sub-section (1), the Election Commission shall, by a general order, notify the date and time having due regard to the following, namely :-

(a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll in all the States and Union territories;

(b) in case of a bye-election or a number of bye-elections held together, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on and from the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll:

Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the last poll.

(3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both."

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-section (2) of the said Section, hereby notifies the period between **7.00 A.M. on 13-11-2024 (Wednesday) and 6.30 P.M.**

**on 20-11-2024 (Wednesday)**, as the period during which conducting and publishing or publicizing exit poll by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the aforesaid General and bye-elections, shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for the conclusion of the poll in connection with the aforesaid general and bye-elections.

By order,  
S.B. JOSHI,  
*Principal Secretary.*

By order,  
NAVDEEP RINWA,  
*Principal Secretary.*

**Annexure-1**

Sl. No.	Name of State	Assembly Constituency No./Parliamentary Constituency No.& Name
1.	Assam	11-Dholai(SC) AC
2.		31-Sidli(ST) AC
3.		32-Bongaigaon AC
4.		77-Behali AC
5.		88-Samaguri AC
6.	Bihar	196-Tarari AC
7.		203-Ramgarh AC
8.		227-Imamganj(SC) AC
9.		232-Belaganj AC
10.	Chhattisgarh	51-Raipur City South AC
11.	Gujarat	7-Vav AC
12.	Karnataka	83-Shiggaon AC
13.		95-Sandur(ST) AC
14.		185-Channapatna AC
15.	Kerala	56-Palakkad AC
16.		61-Chelakkara(SC) AC
17.		4-Wayanad PC
18.	Madhya Pradesh	156-Budhni AC
19.		02-Vijaypur AC
20.	Maharashtra	16-Nanded PC
21.	Meghalaya	56-Gambegre(ST) AC
22.	Punjab	10-Dera Baba Nanak AC
23.		44-Chabbewal(SC) AC
24.		84-Gidderbaha AC
25.		103-Barnala AC
26.	Rajasthan	27-Jhunjhunu AC
27.		67-Ramgarh AC
28.		88-Dausa AC
29.		97-Deoli-Uniara AC
30.		110-Khinwsar AC
31.		156-Salumber(ST) AC
32.		161-Chorasi(ST) AC
33.	Sikkim	07-Soreng-Chakung AC
34.		11-Namchi-Singhithang AC
35.	Uttar Pradesh	16-Meerapur AC
36.		29-Kundarki AC
37.		56-Ghaziabad AC
38.		71-Khair(SC) AC
39.		110-Karhal AC
40.		213-Sishamau AC
41.		256-Phulpur AC
42.		277-Katehari AC
43.	Uttarakhand	397-Majhawan AC
44.		07-Kedarnath AC
45.	West Bengal	06-Sitai(SC) AC
46.		14-Madarihat(ST) AC
47.		104-Naihati AC
48.		121-Haroa AC
49.		236-Medinipur AC
50.		251-Taldangra AC

**भारत निर्वाचन आयोग**

निर्वाचन सदन,  
अशोक रोड,  
नई दिल्ली-110001

संख्या : 576/एजिट/2024/एसडीआर/खण्ड-I

दिनांक : 21 अक्टूबर, 2024

**अधिसूचना**

यतः, निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट सं० ईसीआई/पीएन/149/2024 एवं सं० ईसीआई/पीएन/150/2024 दोनों दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 द्वारा घोषित झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभाओं के लिए वर्तमान साधारण निर्वाचन और 48 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों एवं 2 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप-निर्वाचनों (संलग्नक-1 के अनुसार) के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है; और

2-यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में लोप्रो अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि "(1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात् :-

(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में, मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी;

(ख) किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी :

परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।"

3-अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, **13-11-2024 (बुधवार) को पूर्वाह्न 7.00 बजे से 20-11-2024 (बुधवार) अपराह्न 6.30 बजे** के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान पूर्वोक्त साधारण एवं उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एजिट पोल का संचालन और प्रकाशन करने या प्रिन्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार करने या किसी प्रकार की अन्य रीति में उसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

4-यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अंतर्गत पूर्वोक्त आम और उप-निर्वाचनों में संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

आदेश से,  
एस०बी० जोशी,  
प्रधान सचिव।

आज्ञा से,  
नवदीप रिणवा,  
प्रमुख सचिव।

अनुलग्नक-1

क्रम सं०	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1.	असम	11—धोलाई (अ०जा०) वि०स०नि०क्षे०
2.		31—सिङली (अ०ज०जा०) वि०स०नि०क्षे०
3.		32—बोंगईगांव वि०स०नि०क्षे०
4.		77—बेहाली वि०स०नि०क्षे०
5.		88—सामगुडी वि०स०नि०क्षे०
6.	बिहार	196—तरारी वि०स०नि०क्षे०
7.		203—रामगढ़ वि०स०नि०क्षे०
8.		227—इमामगंज (अ०जा०) वि०स०नि०क्षे०
9.		232—बेलागंज वि०स०नि०क्षे०
10.	छत्तीसगढ़	51—रायपुर नगर दक्षिण वि०स०नि०क्षे०
11.	गुजरात	7—वाव वि०स०नि०क्षे०
12.	कर्नाटक	83—सिंगाओं वि०स०नि०क्षे०
13.		95—सन्दुर (अ०ज०जा०) वि०स०नि०क्षे०
14.		185—चन्नापटना वि०स०नि०क्षे०
15.	केरल	56—पालाक्काड वि०स०नि०क्षे०
16.		61—चेलाक्करा (अ०जा०) वि०स०नि०क्षे०
17.		<b>4—वायनाड सं०नि०क्षे०</b>
18.	मध्य प्रदेश	156—बुधनी वि०स०नि०क्षे०
19.		02—विजयपुर वि०स०नि०क्षे०
20.	महाराष्ट्र	<b>16—नांदेड सं०नि०क्षे०</b>
21.	मेघालय	56—गम्बेगरे (अ०ज०जा०) वि०स०नि०क्षे०
22.	पंजाब	10—डैरा बाबा नानक वि०स०नि०क्षे०
23.		44—चब्बेवाल (अ०जा०) वि०स०नि०क्षे०
24.		84—गिड़बाहा वि०स०नि०क्षे०
25.		103—बरनाला वि०स०नि०क्षे०
26.		27—झुन्झुनू वि०स०नि०क्षे०
27.	राजस्थान	67—रामगढ़ वि०स०नि०क्षे०
28.		88—दौसा वि०स०नि०क्षे०
29.		97—देवली—उनियारा वि०स०नि०क्षे०
30.		110—खींवर वि०स०नि०क्षे०
31.		156—सलूम्बर (अ०ज०जा०) वि०स०नि०क्षे०
32.		161—चोरासी (अ०ज०जा०) वि०स०नि०क्षे०

क्रम सं०	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
33.	सिक्किम	07—सोरेंग—चांकुग वि०स०नि०क्षे०
34.		11—नामची—सिंघीथांग वि०स०नि०क्षे०
35.	उत्तर प्रदेश	16—मीरापुर वि०स०नि०क्षे०
36.		29—कुन्दरकी वि०स०नि०क्षे०
37.		56—गाजियाबाद वि०स०नि०क्षे०
38.		71—खैर (अ०जा०) वि०स०नि०क्षे०
39.		110—करहल वि०स०नि०क्षे०
40.		213—सीसामऊ वि०स०नि०क्षे०
41.		256—फूलपुर वि०स०नि०क्षे०
42.		277—कटेहरी वि०स०नि०क्षे०
43.		397—मझवां वि०स०नि०क्षे०
44.	उत्तराखण्ड	07—केदारनाथ वि०स०नि०क्षे०
45.	पश्चिम बंगाल	06—सिताई (अ०जा०) वि०स०नि०क्षे०
46.		14—मदारीहाट (अ०ज०जा०) वि०स०नि०क्षे०
47.		104—नईहटी वि०स०नि०क्षे०
48.		121—हरोआ वि०स०नि०क्षे०
49.		236—मेदीनिपुर वि०स०नि०क्षे०
50.		251—तालदनगरा वि०स०नि०क्षे०

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 311 राजपत्र—2024—(780)—588+50=638 प्रतियां—(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।